



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 28—सितम्बर 3, 2004 (भाद्रपद 8, 1926)
No. 35] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 28—SEPTEMBER 3, 2004 (BHADRA 8, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा सूचनाओं से संबंधित अधिसूचनाएं	721
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	909
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेशों और सांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	3
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1231
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के विजय तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3 उप-खण्ड—(iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे प्राक्तनों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	909
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	899
भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	6453
भाग III—खण्ड 3—मृत्यु आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अवकाश द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	3985
भाग IV—नगर-सरकारी व्यक्तियों और नगर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	247
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्ज करने वाला सम्पूर्ण	9

CONTENTS

Page

Page

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	.. 721	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	..
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	.. 909	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	..
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	.. 3	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India.	.. 809
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	.. 1231	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	.. 6433
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	..	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the Authority of Chief Commissioners	..
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language of Acts, Ordinance and Regulations	..	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	.. 3785
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	..	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	.. 247
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	..	PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	..
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).	..		

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(एक मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं
[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 11 अगस्त 2004

सं. 4/2/एमपीएलए डीएससी/2004—संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति (लोक सभा) का 7 अगस्त 2004 से गठित की गई। निम्नलिखित सदस्यों को समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु नामनिर्दिष्ट किया गया है।

1. डा० प्रसन्न कुमार आचार्य
2. श्री पंकज चौधरी
3. डा० रामचंद्र डोम
4. श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल
5. चौधरी मुन्वर हसन
6. श्री रघुवीर सिंह कौशल
7. श्री चन्द्रकांत खरे
8. श्री ए० वृष्णास्वामी
9. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक
10. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता
11. श्री पुन्नुलाल मोहाले
12. श्री ए० एफ० जी० ओसमानी
13. श्री असादुद्दीन ओबेसी
14. श्री राजाराम पाल
15. श्री बासन्तोष आर० पाटिल (यत्नाल)
16. श्री पी० राजेन्द्र
17. श्री गुरजीत सिंह सणा
18. श्री एम श्रीनिवासु रेड्डी
19. श्री सज्जन कुमार
20. श्री महादेवराव शिवनकर
21. श्री मानवेन्द्र सिंह
22. श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी
23. श्री चन्द्रपाल सिंह यादव
24. श्री सीता राम यादव

को० डी० मन्नालिया, उप सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 जून 2004

संकल्प

विषय : देश में एम०बी०ए०/पी०जी०डी०एम० (अथवा समकक्ष) पाठ्यक्रमों में प्रवेश को सुविधाजनक बनाना।

सं. 17-8/2002-टी०एस० I—राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के तहत बनाई गई कार्य योजना, 1992 के अनुसार में और प्रवेश परीक्षाओं की अविकलता से बचने के विचार से यह निर्णय लिया गया था कि सभी व्यावसायिक शैक्षिक संस्थाओं (अल्पसंख्यकों से सम्बंधित और गैर-अल्पसंख्यकों से सम्बंधित दोनों) में प्रवेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा (परीक्षाओं) द्वारा निर्धारित योग्यता के आधार पर दिया जाएगा। कोई भी संस्थान अलग से परीक्षा आयोजित नहीं कर सकता।

2. यह निर्णय लिया गया है कि देश की एम०बी०ए०/पी०जी०डी०एम० पाठ्यक्रमों (अथवा समकक्ष) वाली सभी संस्थाओं में वर्ष 2005-06 के लिए प्रवेश अखिल भारतीय स्तर की पांच (5) राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं नामतः सी०ए०टी० (भारतीय प्रबंध संस्थानों द्वारा आयोजित), जे०एम०ई०टी० (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा आयोजित), एम०ए०टी० (ए०आई०एम०एस० द्वारा आयोजित) ए०टी०एम०ए० (ए०आई०एम० एस० द्वारा आयोजित), और एक्स० ए० टी० (एक्स०एस०आर०आई० द्वारा आयोजित) में से किसी एक परीक्षा के आधार पर दिया जाएगा। ये प्रवेश परीक्षाएं इस शर्त पर स्वतंत्र रूप से आयोजित की जाएगी कि ये उद्देश्य मूलक और पारदर्शी हैं। अखिल भारतीय स्तर पर विद्यार्थियों को प्रवेश देने वाली सभी संस्थाओं को इन परीक्षाओं में से किसी एक परीक्षा को अपनाना होगा।

3. शैक्षिक वर्ष 2005-2006 से एमबीए/पीजीडीए (या समकक्ष) पाठ्यक्रमों के लिए उपर्युक्त पांच प्रवेश परीक्षाएं उन संस्थाओं के लिए होंगी जो इस समय अपनी स्वयं की प्रवेश परीक्षाएं आयोजित कर रहे हैं और अपने सभी छात्रों को या कुछ प्रतिशत छात्रों को अखिल भारतीय आधार पर स्वीकृत

दे रहे हैं। सभी राज्य पहले की तरह अपने राज्यों की संस्थाओं में एम्बीए/पीजीडीएम पाठ्यक्रमों में दाखिला देने के लिए अपनी संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित रखना जारी रखेंगे। तथापि ये परीक्षाएँ केवल उनके राज्य के छात्रों के लिए सीमित होंगी। राज्य स्तर की संस्थाओं में अखिल भारतीय आधार पर दाखिल छात्र केवल उपर्युक्त अखिल भारतीय परीक्षाओं के आधार पर दाखिल किए जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद ऐसे राज्य जो अपनी स्वयं की परीक्षाएँ आयोजित नहीं करना चाहते वे अखिल भारतीय परीक्षा (परीक्षाओं) द्वारा निर्धारित योग्यता का प्रयोग कर सकते हैं।

4. विभिन्न अनुमोदित कोटे में सभी दाखिले केवल उपर्युक्त संयुक्त प्रवेश परीक्षाओं पर आधारित परस्पर योग्यता के आधार पर किए जाएंगे। यदि ऐसा पाया जाता है कि किसी भी छात्र को योग्यता के आधार पर दाखिल नहीं किया गया है तो उस संस्था पर दण्ड लगाया जाएगा और उपर्युक्त मामलों में उसकी मान्यता/सम्बद्धता भी वापस ली जा सकती है।

5. इस नीति के प्रभावशाली रूप से कार्यान्वयन और समय समन्वय से संबंधित सभी मुद्दों और कठिनाइयों को, यदि कोई हो तो, उन्हें सुलझाने के लिए एक राष्ट्रीय स्तरीय समन्वय समिति गठित की जाएगी।

6. यह संकल्प दिनांक 10 अक्टूबर, 2003 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 17-8/2002-टीएस-1 के स्थान पर है और तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है। सभी संबंधित संस्थाओं को सलाह दी जाती है कि वे इस संबंध में आवश्यक उपर्युक्त कार्रवाई करें।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दी जाए।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को एक प्रति विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, संबंधित केन्द्रीय संस्थाओं और समविश्वविद्यालयों को भेज दी जाए।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों केंद्र जे-वेड, मेट, एटीएमए, एक्सएटी को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस का व्यापक प्रचार-प्रसार करने हेतु इसे प्रेस सूचना ब्यूरो को भेज दिया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की सार-साधारण की सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

रवि साहू, संयुक्त सचिव

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 11th August 2004

No. 4/2MPLADSC/2004—The Committee on Members of Parliament Local Area Development Scheme (Lok Sabha) has been constituted with effect from 7 August, 2004. The following Members have been nominated to serve on the Committee :-

1. Dr. Prasanna Kumar Acharya Chairman
2. Shri Pankaj Chaudhery
3. Dr. Ramachandra Dome
4. Shri Surendra Prakash Goyal
5. Chaudhary Munawwar Hassan
6. Shri Raghubeer Singh Kaushal
7. Shri Chandrakant Khaire
8. Shri A. Krishnaswamy
9. Shri. Sadashivrao Dadoba Mandlik
10. Shri Bhubneshwar Prasad Mehta
11. Shri Punmul Mohale
12. Shri A. F. Golam Osmani
13. Shri Asaduddin Owaisi
14. Shri Raja Ram Pal
15. Shri Basangouda R. Patil, (Yatnal)
16. Shri P. Rajendran
17. Shri Gurjeet Singh Rana

18. Shri M. Sreenivasulu Reddy
19. Shri Sajjan Kumar
20. Shri Mahadeorao Shivankar
21. Shri Manvendra Singh
22. Shri Chandramani Tripathi
23. Shri Chandrapal Singh Yadav
24. Shri Sitaram Yadav

P. D. MALVALIA
Dy. Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF SECONDARY & HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 17th June 2004

RESOLUTION

Subject : Streamlining of Admissions to MBA/PGDM (or Equivalent) Programmes in the Country.

No. 17-8/2002-TS.I—In pursuance of the Programme of Action (PoA) 1992 under the National Policy on Education (NPE) 1986 and with a view to avoid multiplicity of entrance tests, it was decided

that the admission to all professional educational institutions (both minority and non-minority) shall be held on the basis of merit determined through common entrance test(s). Each Institute cannot hold a separate test.

2. It has been decided that for admissions on All India Basis to the MBA/PGDM (or equivalent) programmes in all institutions in the country for the year 2005-2006, shall be through one of the five (5) national entrance tests, namely-CAT (conducted by IIMs), JMET (conducted by IITs), MAT (conducted by AIMA), ATMA (conducted by AIMS) and XAT (conducted by XLRI). These tests shall be conducted independently, subject to the condition that these are objective and transparent. All institutions admitting students on All India Basis will have to opt for one of these exams.

3. Above mentioned five admission tests for MBA/PGDM (or equivalent) programmes from the academic year 2005-2006 shall be for those institutions that are presently holding their own entrance tests and admitting all their students or certain percentage of them on All India Basis. All States shall continue to hold their own common entrance tests for admission to MBA/PGDM programmes in Institutions within their States as before. However, these tests shall be restricted to students from within the State only. Students admitted on All India Basis in the State level institutions shall be admitted only on the basis of All India Exams as above. Further still, many states that may not like to conduct their own tests could use merit determined by the All India Test (s).

4. All admissions in different approved quotas shall be made strictly on the basis of inter-se merit based

on common entrance tests as above. If it is found that any student has been admitted de hors merit, penalty shall be imposed on that Institute and in appropriate cases recognition/affiliation may also be withdrawn.

5. In order to resolve all related issues and difficulties if any, for effective implementation of this policy and for overall coordination, a National Coordination Committee (NCC) will be constituted.

6. This resolution supersedes the O. M. No. 17-8/2002—TS.I dated 10th October, 2003 and comes into immediate effect. All concerned are advised to take necessary appropriate action in this regard.

ORDERS

ORDERED that a copy of the resolution be communicated to all State Governments and Union Territories.

ORDERED that a copy of this Resolution be sent to UGC, AICTE, related Central Institutions and Deemed Universities.

ORDERED that a copy of this Resolution be sent to Examination conducting agencies CAT, JMET, MAT, ATMA, XAT.

ORDERED also that the resolution be communicated to the Press Information Bureau for giving wide publicity.

ORDERED also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

RAVI MATHUR
M. Secy.